

धीरखेड़ा में छापा मारकर कीटनाशक नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा



मेरठ, जेएनएन। रविवार को कृषि विभाग और खरखौदा पुलिस की संयुक्त टीम ने धीरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक मकान में छापा मारकर बहुराष्ट्रीय कंपनी एफएमसी और सिंजेटा के उत्पाद फटेरा और वर्टिको के नकली कीटनाशक दवाइयों का जखीरा पकड़ा है। जिला कृषि अधिकारी प्रमोद सिरोही ने बताया कि सूचना मिलने पर खरखौदा पुलिस के संयुक्त प्रयास से छापा मारकर एक मकान में चल रहे गोदाम से भारी मात्रा में फटेरा और वर्टिको दवाइयों के पैकेट बरामद किए हैं। 156 पैकेट फटेरा और 96 पैकेट वर्टिको कृषि दवाइयों के नकली मिले हैं। उन्होंने पैकिंग मैटेरियल भारी मात्रा में जब्त करते हुए कार्रवाई करने का दावा किया है। जिला कृषि अधिकारी के साथ टीम में थानाध्यक्ष खरखौदा जितेंद्र कुमार दुबे, धीरखेड़ा चौकी प्रभारी फरीद अहमद और पटल प्रभारी गण परमीत सिंह एवं अनिल कुमार उपस्थित रहे। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में धीरखेड़ा निवासी ओसवाल सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कहीं बाहर पैकिंग करा कर लाया जा रहा था माल जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि कीटनाशक दवाइयों की पैकिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें कहीं बाहर बनाकर यहां गोदाम बनाकर क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा था। मामले में टीम लगाकर जांच की जा रही है। पहले भी पकड़ी जा चुकी हैं नकली दवाइयां धीरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व में भी नकली कीटनाशक दवाइयों का जखीरा पकड़ा जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। कुछ दिन पहले मुंबई की टीम ने नकली दवाइयां बरामद की थीं। इससे पूर्व गोल्ड स्टार के नकली जूते, और नकली सास बनाने के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अवैध कारोबार पर नकेल नहीं कस पा रही है।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-raids-in-dhirkheda-and-caught-a-cache-of-fake-pesticides-22756602.html>